



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 343] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 1, 1977/ कार्तिक 10, 1899

No. 343] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 1, 1977/KARTIKA 10, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st November 1977

G.S.R. 664(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Act, 1977 (33 of 1977), the Central Government hereby appoints the 1st day of November, 1977, as the date on which the said Act shall come into force

[No F. 12(1)/77-R&C]

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1977

सा० का० नि० 664 (अ).— केन्द्रीय सरकार, समूह में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 नवम्बर, 1977 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[स० एफ० 12 (1) 77-आर एण्ड सी]

G.S.R. 665(E).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Act, 1977 (33 of 1977), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title.**—(1) These rules may be called the Leaders of Opposition in Parliament (Allowances, Medical and other Facilities) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette

2. **Definitions.**—In these rules unless there is anything repugnant to the subject or context—

(i) "Act" means the Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Act, 1977 (33 of 1977),

(ii) "actual travelling expenses" means the actual cost of travel of the Leader of the Opposition and his servants and includes the cost of transporting his personal luggage, but does not include the charges for hotels, travellers' bungalows or refreshments or for the carriage of stores or conveyances or for such incidental losses or expenses as the breakage of the crockery, wear and tear of furniture and the employment of additional servants,

(iii) "family" means, except in relation to rule 16, the wife of the Leader of the Opposition residing with him and the legitimate children and step children residing with and wholly dependent on him

Explanation 1.—Not more than one wife is included in a family for the purposes of these rules

Explanation 2.— If the Leader of the Opposition is a married woman, "family" will include her husband residing with and wholly dependent on her;

(iv) "first class compartment" means a two-berthed or four-berthed first class compartment or an air-conditioned coupe or four-berths in an air-conditioned two-tier sleeper coach,

(v) "Form" means a form appended to these rules,

(vi) "travelling allowance" means an allowance granted to the Leader of the Opposition to cover the expenses which he incurs in travelling in the discharge of his duties as such Leader as against travelling in personal interest or in the interests of the party to which he may belong or for private purpose, such as journeys for rest or recoupment of health or for attending party meetings or for election campaign.

3. **Size of residence.**—The Leader of the Opposition shall be allotted a resident of which the standard rent, or if the rents have been pooled, the pooled standard rent calculated in accordance with the provisions of the Fundamental Rule 45-A, does not, as far as possible, exceed Rs. 650 per month.

4. **Furniture and electrical appliances.**—(1) The value of furniture and electrical appliances provided free of rent in a residence allotted under section 4 of the Act shall not exceed thirty-eight thousand and five hundred rupees

(2) For every article of furniture or electrical appliances provided in such residences, in excess of the limits specified in sub-rule (1), the Leader of the Opposition shall be liable to pay rent at the same rates as are applicable to Government servants, together with the departmental charges.

5 **Rent for residence by family after the death of the Leader of the Opposition.**—Where, after the death of the Leader of the Opposition his family continues to occupy the residence which had been occupied by him immediately prior to his death, in respect of the period specified in clause (b) of sub-section (2) of section 4 of the Act, the family shall be charged rent in accordance with the provisions of Fundamental Rule 45-A, or, if the rents have been pooled, the pooled standard rent under Fundamental Rule 45A

6 **Rent for period of over-stay.**—Where the Leader of the Opposition, on ceasing to be such Leader, occupies a residence beyond the period specified in section 4 of the Act, he shall be liable to pay, for the period of over-stay rent calculated in accordance with the provisions of Fundamental Rule 45-B, together with full departmental charges, or if the rents have been pooled, the pooled standard rent under F R 45-A, whichever is higher.

7 Inventory of furniture and fittings.—An inventory of furniture, fittings and electrical appliances provided in a residence allotted to the Leader of the Opposition shall be prepared and verified periodically in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time

8 Travelling Allowance for assuming and relinquishing office.—(1) In respect of the journeys of the Leader of the Opposition under sub-clauses (i) and (ii) of clause (a) of section 5 of the Act, he shall be entitled to travelling allowance on the scale for the time being admissible to a Central Government servant of the first grade on transfer, subject to the modification that as regards journeys by rail, the Leader of the Opposition and members of his family may travel by air-conditioned class of accommodation

(2) In lieu of drawing travelling allowance under sub-rule (1), the Leader of the Opposition may, at his option, travel by rail on the following terms:—

- (a) any accommodation which he will be entitled to reserve by requisition after assuming office will, if practicable be placed at his disposal;
- (b) the charge for haulage of the reserved accommodation will be paid by the Government, and
- (c) the Leader of the Opposition shall pay to the Government the fare which he would have paid if no accommodation had been reserved and shall, in addition, pay in cash to the Station Master of the station from which the journey commences, the fares for any member of his family accompanying him, whether they share his reserved accommodation or not. All such fares shall be credited to the Government.

9 Travelling Allowance while on duty.—In respect of tours undertaken by the Leader of the Opposition in the discharge of his duties as such Leader,—

- (a) he may, at his option, reserve a first class compartment by requisition, or travel by taking a single berth in a first class compartment,
- (b) he may travel by air in a regular air service and recover in respect of such travel the air fare paid by him (except when fare is paid by the Government direct to the company);
- (c) (i) when travelling by road or steamer, whether in Government transport or otherwise, he may recover his actual travelling expenses appending to his bill a certificate in Form I
- (ii) when travelling by road in his private car, he may, in lieu of the actual travelling expenses admissible under sub-clause (i), draw, at his option, a mileage allowance at the rate of thirty-two paise per kilometer.

10 Conveyance of other persons and servants.—(1) The Leader of the Opposition when travelling in the discharge of his duties as such Leader, is entitled without payment to,—

- (a) take with him in the first class compartment one relative, and
- (b) accommodation for two personal servants.

(2) Any person other than the relative mentioned in sub-rule (1) travelling with the Leader of the Opposition in the first class compartment shall pay the usual fares to the railway by purchase of first class ticket, or, air-condition class ticket, as the case may be, and in every bill for travelling allowance in respect of a journey performed in such first class compartment, the Leader of the Opposition shall specify the number of persons who travelled with him and shall furnish a certificate in Form II

(3) Whenever the Leader of the Opposition undertakes any journey in the discharge of his duties, he may, at his discretion take with him at the expense of Government either his Private Secretary or a Personal Assistant

Provided that the Private Secretary or a Personal Assistant of the Leader of the Opposition may be allowed to undertake journey by air, whenever this is considered by the Leader of the Opposition to be absolutely urgent and necessary.

11 Daily Allowance.—(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Leader of the Opposition shall be entitled to draw daily allowance in respect of halts made by him at places at the rate of Rs 30/- provided he does not return to his headquarters within 24 hours from the commencement of tour.

Explanation 1—Daily allowance admissible under this sub-rule shall be calculated on the basis of the period of halts which shall begin from the time the forward journey ends at the actual place of halt and shall end at the time the return or further journey commences, therefrom. Such calculations shall be made as under—

- | | |
|---|--|
| (1) Halt upto six hours | Nil |
| (2) Halt exceeding six hours but not exceeding 12 hours | Half daily allowance |
| (3) Halt exceeding 12 hours but not exceeding 24 hours | Full daily allowance |
| (4) Halt exceeding 24 hours | One daily allowance for every 24 hours' halt. For a fraction of 24 hours, at the end of halt, daily allowance shall be calculated in accordance with the entries (1), (2) or (3) above, as the case may be |

Explanation 2—If the Leader of the Opposition halts at more than one station during his tour, each continuous halt shall separately qualify for daily allowance under this sub-rule, provided that, in respect of halts at different stations on the same day, not more than one daily allowance shall be admissible in the aggregate

(2) For each continuous halt on tour exceeding ten days, daily allowance will be admissible,—

- (i) at the rate specified in sub-rule (1) for the first ten days;
- (ii) at three fourths of those rates for the succeeding 20 days and
- (iii) at one-half of those rates thereafter

NOTE—A halt on tour shall be treated as continuous unless terminated by an absence at a distance exceeding 8 kms from the halting place for a period covering not less than seven consecutive nights

12 Allowance when treated as State Guest.—When the Leader of the Opposition is treated as a State Guest during his stay at a place visited by him in the discharge of his duties as such Leader and is provided with free boarding and lodging at the expense of the State, he shall, if he draws daily allowance, limit it to his actual expenses subject to a maximum of the full allowance admissible under these rules

13 Journeys outside India.—(1) Where the Leader of the Opposition performs a journey outside India in the discharge of his duties as such Leader, he shall be entitled to the following travelling and other allowances in respect of such journey, namely—

- (a) (i) **Travelling Allowance**—For that part of the journey which the Leader of the Opposition undertakes in India, travelling allowance will be regulated in accordance with rule 9
- (ii) **Passage**—For the journey undertaken outside India free return air-cum-rail-cum-sea passage by the shortest route will be provided by the First Class in air and rail journeys and First Class-C grade passage in journey by sea or by any lower class by which the Leader of the Opposition actually travels, from the last port of emplanement or embarkation in India to the place visited in the foreign country and back. Rail travel will include sleeping berth during nights
- (ii) **Luggage**—The leader of the Opposition can carry with him not exceeding 40 kilograms or luggage including the free allowance allowed by the Air Transport Companies
- (b) **Daily Allowance.**—(1) Daily allowance as admissible to a grade I officer of the Central Government will be paid on the basis of nights spent at the place of business in connection with his work in the foreign country in accordance with the rates prescribed by the Ministry of External Affairs, from time to time
- (ii) Two-third of the daily allowance will also be paid during the period of journey by rail provided the cost of food is not included in the rail fare paid.

(iii) The Leader of the Opposition will not be entitled to any daily allowance admissible under any other rules, for the period spent outside India

(c) **Other Expenses**—The Leader of the Opposition is entitled to —

(i) free board and lodging expenses at enforced halts en route where the Air Companies do not provide the same subject to the maximum daily allowance admissible at the place of halt,

(ii) actual expenses incurred on passport fees and vaccination and inoculation certificates subject to the production of receipts

(iii) incidental expenses such as tips, taxi hire and cabfare incurred on duty on production of the necessary vouchers

Provided that where the receipts or vouchers for actual or incidental expenses incurred are not available the expenditure shall be reimbursable on the basis of the certificate of the Leader of the Opposition that it was actually incurred

(2) The Leader of the Opposition who claims the actual or incidental expenses under sub-rule (1)(c) shall support his claim by the certificates in form III

14 Travelling expenses for journey of family on the death of a leader of the Opposition—On the death of the Leader of the Opposition the members of his family shall be entitled to travelling expenses in respect of the journey from Delhi to their usual place of residence outside Delhi on the same scale as is admissible for the time being to the family of a Central Government servant of the first grade on his death while in service

Provided that the journey shall be completed by the family of the Leader of the Opposition within six months from his death

15 Advances—The Leader of the Opposition shall be entitled to —

(a) an advance of travelling allowance in respect of his journey and the journey of the members of his family and cost of transporting his family's effects—

(i) from his usual place of residence outside Delhi for assuming office and

(ii) from Delhi to his usual place of residence outside Delhi on relinquishing office and

(b) an advance of travelling and daily allowance in respect of tours undertaken by him in the discharge of his duties as such Leader

16 Medical Attendance and Treatment—(1) The Leader of the Opposition and members of his family shall be entitled free of charge to medical attendance and treatment on the scale and conditions applicable to members of the All India Services and the members of their families under the All India Services (Medical Attendance) Rules, 1954

(2) When the Leader of the Opposition proceeds to a country outside India in the discharge of his duties as such Leader he shall be entitled free of charge to such medical attendance and treatment as may be admissible to the Head of the Indian Mission at that place

Note — family for the purposes of this rule shall have the same meaning as is assigned to it in the relevant Medical Attendance Rules

17 Telephone Facilities—The Leader of the Opposition shall be entitled to the installation and maintenance of a telephone at his office in Parliament House New Delhi and his residence in New Delhi/Delhi. No charges shall be payable by him in respect of the rental of the telephone or for local and trunk calls made by him in the discharge of his duties as the Leader of the Opposition

18 Secretarial Assistance—(1) The Leader of the Opposition shall be entitled to the following secretarial assistance —

(a) One Private Secretary

(b) Two Personal Assistants (including Hindi Stenographer),

(c) One Lower Division Clerk,

(d) One Jamadar and

(e) One peon

(2) The posts mentioned in sub-rule (1) shall carry the same status and scales of pay as are applicable to corresponding posts on the Personal Staff of a Cabinet Minister under the Central Government

19 **Conveyance Allowance**—The conveyance allowance admissible to the Leader of the Opposition under sub-section (2) of section 8 of the Act shall be paid to him on production of a certificate in Form IV.

20 **Interpretation.**—If any question arises as to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Central Government for decision.

FORM I

[Clause (c)(1) of rule 9]

I certify that I have actually paid the amount of this bill and that it does not include any charge for the freight of any stores or goods, other than my personal luggage, or any charge for refreshments, hotels or travellers' bungalows

FORM II

[rule 10(2)]

CERTIFICATE

1 Certified that no person travelled with me in the Reserved Compartment

2 Certified that Private Secretary/Personal Assistant travelled with me in the reserved accommodation and that he actually purchased a ticket of the class of accommodation to which he is entitled

3 Certified that a relative of mine travelled with me in the reserved accommodation, without payment of any fare, as authorised.

4. Certified that———extra person/s travelled with me in the reserved accommodation and that necessary first class/air-conditioned class tickets were purchased by them.

(NOTE—Please score out the paragraphs which are not applicable)

FORM III

(rule 13)

CERTIFICATE

1 Certified that expenses incurred on passport fees/vaccination and inoculation certificates were in the interest of the work of the Delegation and that rates of taxi-hire etc are in accordance with the prevailing rates and the expenditure on these items was reasonable.

2 Certified that the expenditure on account of tips included in the bill is not more than what has been actually incurred

FORM IV

(rule 19)

CERTIFICATE

Certified that I have incurred an expenditure of not less than Rupees three hundred on conveyance during the month of——— in the discharge of my duties as the Leader of the Opposition.

[No F. 12(3)/77-R&C]

K. N. KRISHNAN, Secy.

सां० का०, नि० 665 (अ).—वेन्द्रीय सरकार, ससद् मे विपक्षी नेता बेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ससद् मे विपक्षी नेता (भत्ते, चिकित्सीय और अन्य सुविधा) नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों मे, जब तक कि कोई बात विषय या सदस्य के विरुद्ध न हो—

(i) “अधिनियम” से ससद् मे विपक्षी नेता बेतन और भत्ता अधिनियम 1977 (1977 का 33) अभिप्रेत है,

(ii) “वास्तविक यात्रा खर्च” से अभिप्रेत है विपक्षी नेता और उसके सेवकों की यात्रा का वास्तविक खर्च और इसमे उसके निजी सामान के परिवहन का खर्च सम्मिलित है, किन्तु होटल, यात्री-बगलो या जलपान, अथवा भण्डार को लाने ले जाने, या सवारी या ऐसी आनुषंगिक हानियों या व्ययों, जैसे क्राकरी का टूटना-फूटना, फर्नीचर की टूट-फूट और अनिश्चित सेवकों के नियोजन के लिए प्रभार सम्मिलित नहीं है,

(iii) “कुटुम्ब” से अभिप्रेत है, नियम 16 के सम्बन्ध मे के सिवाय, विपक्षी नेता के साथ रहने वाली उसकी पत्नी और उसके साथ रहने वाली तथा पूर्णतया उस पर आश्रित धर्मज सन्तान और मौनेली सन्तान।

स्पष्टीकरण 1 —इन नियमों के प्रयोजनार्थ कुटुम्ब मे एक से अधिक पत्नी सम्मिलित नहीं है,

स्पष्टीकरण 2 —यदि विपक्षी नेता विवाहिता स्त्री है तो “कुटुम्ब” मे उसके साथ रहने वाला और पूर्णतया उस पर आश्रित उसका पति सम्मिलित है,

(iv) “प्रथम श्रेणी का छिब्बा” से अभिप्रेत है दो बर्थ या चार बर्थ वाला प्रथम श्रेणी का छिब्बा या एक वातानुकूलित कूप या किसी वातानुकूलित दो टियर शयन-यान मे चार बर्थ,

(v) “प्ररूप” से इन नियमों मे उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है,

(vi) “यात्रा भत्ता” से ऐसा भत्ता अभिप्रेत है जो उन व्ययों का, जो वह ऐसे नेता के रूप मे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने मे यात्रा करने मे करता है, न कि वे व्यय जो व्यक्तिगत हित मे या उस दल के हित मे जिसका वह सदस्य है या विश्राम अथवा स्वास्थ्य सुधार के लिए की गई यात्राओं जैसे निजी प्रयोजन के लिए या दल की बैठकों मे उपस्थित होने के लिए या निर्वचन अभियान के लिए करे।

3. निवास का आकार.—विपक्षी नेता को एक ऐसा निवास आवंटित किया जाएगा जिसका मानक किराया, या यदि किराये पूल कर लिए गए हैं तो मूल नियम 45-क के उपबन्धों के अनुसरण मे मशणित पूलित मानक किराया, यथासंभव, 650 रुपए प्रतिमास से अधिक न हो।

4. फर्नीचर और बंधुत साधित्र —(1) अधिनियम की धारा 4 के अधीन आवंटित निवास मे जिस फर्नीचर और जिन विद्युत साधित्रों की किरायामुक्त व्यवस्था की गई है उन का मूल्य अठ्तीस हजार पाच सौ रुपए से अधिक नहीं होगा।

(2) ऐसे निवासों में जिस फर्नीचर या जिन वैद्युत साधनों की उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक मात्रा में व्यवस्था की गई है उन के लिए विपक्षी नेता उन दरों पर, जो सरकारी सेवकों को लागू है, किराया देने, और साथ ही विभागीय प्रभागों का मददाय करने का दायी होगा।

5. विपक्षी नेता की मृत्यु के पश्चात् निवास के लिए कुटुम्ब/द्वारा किराये का दिया जाना.—जहाँ विपक्षी नेता की मृत्यु के पश्चात् उसका कुटुम्ब उस निवास को अधिभोग में रखे रखता है जो उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व उसके अधिभोग में था वहाँ इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट अवधि की बाबत कुटुम्ब में किराया, मूल नियम 45-क के उपबन्धों के अनुसार, या, यदि किराये को पूल कर लिया गया है तो मूल नियम 45-क के अधीन पूलित मानक किराया लिया जाएगा।

6. अधिक ठहरने की अवधि के लिए किराया.—जहाँ विपक्षी नेता, जब वह ऐसा नेता नहीं रह जाता तब, अधिनियम की धारा 4 में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् निवास को अधिभोग में बनाए रखता है वहाँ, वह अधिक ठहरने की अवधि के लिए, मूल नियम, 45-ख के उपबन्धों के अनुसार संगणित किराया, पूरे पूरे विभागीय प्रभागों सहित, या यदि किराये को पूल कर लिया गया है तो मूल नियम 45-क के अधीन पूलित मानक किराया, इनमें से जो भी अधिक हो, देने का दायी होगा।

7. फर्नीचर और फिटिंगों की तालिका.— विपक्षी नेता को आवंटित निवास में दिए गए फर्नीचर, फिटिंगों और वैद्युत साधनों की एक तालिका, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, तैयार की जाएगी और समय समय पर मर्यापित की जाएगी।

8. पद-ग्रहण और पद-त्याग के लिए यात्रा-भत्ता —(1) विपक्षी नेता, अधिनियम की धारा 5 के खंड (क) के उखंड (i) और (ii) अधीन की गई यात्राओं के लिए, उसके मापमान के अनुसार यात्रा भत्ते का हकदार होगा जो प्रथम श्रेणी के केन्द्रीय सरकार के सेवकों को स्थानान्तरण पर तत्समय अनुज्ञप्त हो किन्तु ऐसा इस उपान्तरण के अधीन रहने हुए होगा कि रेल द्वारा की गई यात्राओं की बाबत विपक्षी नेता और उस के कुटुम्ब के सदस्य वातानुकूलित श्रेणी के डब्बे में यात्रा कर सकेंगे।

(2) उपनियम (1) के अधीन यात्रा भत्ता लेने के स्थान पर विपक्षी नेता, अपने विकल्पानुसार, निम्नलिखित शर्तों पर रेल द्वारा यात्रा कर सकेगा —

(क) ऐसा कोई स्थान, जिसे वह पद-ग्रहण करने के पश्चात् अध्ययक्षा करके, आरक्षित करने का हकदार होगा, यदि माध्य हो तो, उसकी मुपुर्वगी में दे दिया जाएगा ;

(ख) आरक्षित स्थान का वहन-प्रभार सरकार द्वारा भ्रदा किया जाएगा, और

(ग) विपक्षी नेता सरकार को उतना भाडा देगा, जितना उसने तब दिया होता जब स्थान आरक्षित न किया जाता, और इसके अतिरिक्त उस स्टेशन के, जहाँ से यात्रा आरम्भ होती है, स्टेशन मास्टर को, अपने साथ यात्रा करने वाले अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य का, चाहे वह उसके आरक्षित स्थान का उपयोग करे या न करे, भाडा नकद देगा। ऐसे सभी भाडे सरकार के नाम जमा किए जाएंगे।

9. कर्तव्य पर रहने के समय यात्रा भत्ता.—विपक्षी नेता द्वारा ऐसे नेता के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए दौरो के लिए,—

- (क) वह अध्यपेक्षा करके प्रथम श्रेणी का डिब्बा, अपने विकल्पानुसार, आरक्षित करा सकेगा, या प्रथम श्रेणी के डिब्बे में एक ही बर्थ लेकर यात्रा कर सकेगा
- (ख) वह नियामत विमान सेवा में विमान से यात्रा कर सकेगा और ऐसी यात्रा के लिए अपने द्वारा दिया गया विमान भाड़ा (सिवाए तब के जब भाड़ा सरकार द्वारा सीधे कम्पनी को दे दिया जाए) वसूल कर सकेगा ;
- (ग) (i) जब सरकारी परिवहन में या अन्यथा, सड़क से या स्टीमर से यात्रा की जाए तब, वह अपने बिल के साथ प्ररूप-1 में प्रमाणपत्र लगा कर अपना वास्तविक यात्रा व्यय वसूल कर सकेगा ।
(ii) जब अपनी निजी कार में सड़क से यात्रा की जाए तब, वह उपखंड (i) के अधीन अनुज्ञेय वास्तविक यात्रा व्यय के बदले, अपने विकल्पानुसार, बत्तीस पैसे प्रति किलोमीटर की दर से मील-भत्ता ले सकेगा ।

10. अन्य व्यक्तियों और सेवकों का वाहन.—(1) विपक्षी नेता, जब वह ऐसे नेता के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में यात्रा करे तब, बिना सहाय किए हुए,—

- (क) प्रथम श्रेणी के डिब्बे में अपने साथ एक सम्बन्धी को ले जाने ; और
- (ख) दो निजी सेवकों के लिए स्थान प्राप्त करने, का हकदार है ।

(2) विपक्षी नेता के साथ प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने वाला कोई व्यक्ति, जो उपनियम (1) में, उल्लिखित सम्बन्धी से भिन्न हो, यथास्थिति, प्रथम श्रेणी का टिकट, या, वातानुकूलित श्रेणी का टिकट खरीद कर रेलवे को प्राथिक भाड़ा अदा करेगा और ऐसे प्रथम श्रेणी के डिब्बे में की गई यात्रा की बाबत यात्रा भत्ते के प्रत्येक बिल में विपक्षी नेता उन व्यक्तियों की, जिन्होंने उसके साथ यात्रा की हो, सख्या विनिर्दिष्ट करेगा और प्ररूप 2 में एक प्रमाणपत्र देगा ।

(3) जब कभी विपक्षी नेता अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोई यात्रा करता है तब, वह अपने विकल्पानुसार, या तो अपने निजी सचिव को या वैयक्तिक सहायक को सरकार के व्यय पर अपने साथ ले जा सकेगा :

परन्तु विपक्षी नेता के निजी सचिव या वैयक्तिक सहायक को, जब कभी विपक्षी नेता इसे पूर्ण रूप से अर्जेंट और आवश्यक समझे तब, विमान द्वारा यात्रा करने के लिए अनुज्ञा दी जा सकेगी ।

11. दैनिक भत्ता.—(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विपक्षी नेता स्थान स्थान पर ठहरने के कारण 30 रु० की दर से दैनिक भत्ता लेने का हकदार होगा, परन्तु यह तब जब वह दौरे के प्रारम्भ से 24 घंटों के भीतर अपने मुख्यालय को न लौटे ।

स्पष्टीकरण 1.—इस उपनियम के अधीन अनुज्ञेय दैनिक भत्ते की गणना ठहरने की अवधि के आधार पर की जाएगी, जो उस समय से प्रारम्भ होगी, जब भागे की यात्रा

ठहरने के वास्तविक स्थान पर समाप्त होती है और उस समय समाप्त होगी, जब वहाँ से वापसी की या आगे की यात्रा प्रारम्भ हो। ऐसी गणनाएं निम्न प्रकार से की जाएंगी—

- (1) छह घंटे तक ठहरने के लिए . . . कुछ नहीं
- (2) छह घंटों से अधिक किन्तु 12 घंटों से . . . आधा दैनिक भत्ता
अनधिक तक ठहरने के लिए . . .
- (3) 12 घंटों से अधिक किन्तु 24 घंटों से . . . पूरा दैनिक भत्ता ।
अनधिक तक ठहरने के लिए . . .
- (4) 24 घंटों से अधिक ठहरने के लिए . . . प्रत्येक 24 घंटे तक ठहरने के लिए एक
दैनिक भत्ता । 24 घंटों के किसी अंश के
लिए, ठहरने की समाप्ति पर, दैनिक भत्ते
की गणना, यथास्थिति, उपर्युक्त प्रविष्टि
(1), (2) या (3) के अनुसार की
जाएगी ।

स्पष्टीकरण 2.—यदि विपक्षी नेता अपने दौरे के दौरान एक से अधिक स्टेशनों पर ठहरता है तो प्रत्येक सतत ठहराव, इस उपनियम के अधीन, दैनिक भत्ते के लिए अलग अलग ग्राह्य होगा, परन्तु एक ही दिन को विभिन्न स्टेशनों पर ठहरने के लिए कुल मिलाकर एक से अधिक दैनिक भत्ते की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(2) दस दिन से अधिक के दौरे पर प्रत्येक सतत ठहराव के लिए दैनिक भत्ता—

- (i) प्रथम दस दिनों के लिए उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट दर से ;
 - (ii) बाद के 20 दिनों के लिए उन दरों की तीन-चौथाई दर से ; और
 - (iii) तत्पश्चात् उन दरों की आधी दर से,
- अनुज्ञात होगा ।

टिप्पण.—दौरे पर के ठहराव को सतत ठहराव के रूप में समझा जाएगा जब तक कि ठहरने के स्थान से 8 कि० मी० से अधिक की दूरी पर कम से कम सात निरन्तर रातों तक अनुपस्थिति के कारण ठहराव समाप्त न हो गया हो ।

12. राजकीय अतिथि के रूप में रहने पर भत्ता.—जब विपक्षी नेता को, ऐसे नेता के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी स्थान पर जाने पर वहाँ ठहरने की अवधि के दौरान राजकीय अतिथि के रूप में माना गया हो और उसके लिए राज्य के व्यय पर निःशुल्क भोजन और आवास की व्यवस्था की गई हो, तब, वह, यदि वह दैनिक भत्ता लेता है तो, उसे, इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय अधिकतम पूरे भत्ते के अधीन रहते हुए, अपने वास्तविक व्यय तक सीमित करेगा ।

13. भारत से बाहर की यात्रा.—(1) जहाँ विपक्षी नेता ऐसे विपक्षी नेता के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भारत से बाहर की कोई यात्रा करता है वहाँ, वह ऐसी यात्रा की बाबत निम्नलिखित यात्रा तथा अन्य भत्तों का हकदार होगा, अर्थात् :—

- (क) (i) यात्रा भत्ता.—विपक्षी नेता द्वारा भारत में की गई यात्रा के लिए यात्रा-भत्ता नियम 9 के अनुसार विनियमित होगा ।
- (ii) मार्ग व्यय—भारत से बाहर की गई यात्रा के लिए, भारत में स्थित अन्तिम विमानरोहण या पोतारोहण प्लान से विदेश में उसके गन्तव्य स्थान

तक, और वहां से वापसी के लिए, वायु-एव-रेल यात्राओं में प्रथम श्रेणी के वायु-एव-रेल-एवं-समुद्र मार्ग के निःशुल्क वापसी मार्ग व्यय (पैसेज) की, और समुद्र मार्ग में यात्रा करने में प्रथम श्रेणी-सी ग्रेड या किसी निम्नतर श्रेणी से, जिसमें विपक्षी नेता वस्तुतः यात्रा करता है, मार्ग-व्यय की व्यवस्था की जाएगी।

(iii) सामान—विपक्षी नेता अपने साथ 40 किलोग्राम में अनधिक सामान, जिसमें विमान परिवहन कम्पनियों द्वारा अनुज्ञात निःशुल्क ले जाए जाने वाला सामान सम्मिलित है, ले जा सकता है।

(ख) दैनिक भत्ता.—(i) विदेश में अपने कार्य के सम्बन्ध में काम के स्थान पर बिताई गई रातों के आधार पर, केन्द्रीय सरकार के वर्ग 1 के अधिकारी को यथा-अनुज्ञेय दैनिक भत्ता, समय-समय पर विदेश मन्त्रालय द्वारा विहित दरों के अनुसार, दिया जाएगा।

(ii) रेल से की गई यात्रा की अवधि के दौरान दैनिक भत्ते का दो-तिहाई भाग और दिया जाएगा परन्तु यह तब जबकि संदत्त रेल-भाड़े में भोजन-व्यय शामिल न हो।

(iii) विपक्षी नेता, भारत से बाहर बिताई गई अवधि के लिए, किसी अन्य नियम के अधीन अनुज्ञेय दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा।

(ग) अन्य व्यय.—विपक्षी नेता निम्नलिखित का हकदार होगा—

(i) मार्ग में विवशतः ठहर जाने के कारण, जहां विमान कम्पनियां भोजन तथा आवास व्यवस्था नहीं करती वहां, निःशुल्क भोजन और आवास व्यय, जो ठहरने के स्थान पर अनुज्ञेय अधिकतम दैनिक भत्ते तक सीमित रहेगा;

(ii) पारपत्र फीस और चेक तथा हैजे के टीके के प्रमाणपत्र पर उपगत वास्तविक व्यय, रसीदें प्रस्तुत करने पर;

(iii) ड्यूटी पर उपगत आनुषंगिक व्यय जैसे बख्शीस, टैक्सी-भाड़ा और कैब-भाड़ा, आवश्यक वाउचर प्रस्तुत करने पर;

परन्तु जहां उपगत वास्तविक या आनुषंगिक व्यय की रसीदें या वाउचर उपलब्ध न हों वहां व्यय की प्रतिपूर्ति विपक्षी नेता के इस आशय के प्रमाणपत्र के आधार पर की जाएगी कि वह व्यय वस्तुतः किया गया था।

(2) विपक्षी नेता, जो उप-नियम (1) (ग) के अधीन वास्तविक या आनुषंगिक व्ययों का दावा करता है, प्ररूप 3 में प्रमाणपत्र देकर अपने दावे की पुष्टि करेगा।

14. विपक्षी नेता की मृत्यु पर उसके कुटुम्ब द्वारा की गई यात्रा के लिए यात्रा-व्यय.—विपक्षी नेता की मृत्यु हो जाने पर, उसके कुटुम्ब के सदस्य दिल्ली से दिल्ली के बाहर के अपने सामान्य निवास स्थान तक की गई यात्रा के लिए उसी दर पर यात्रा-व्यय के हकदार होंगे जो प्रथम श्रेणी के केन्द्रीय सरकार के सेवक की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने की दशा में तत्समय उसके कुटुम्ब को अनुज्ञेय है:

परन्तु यह तब जब विपक्षी नेता के कुटुम्ब द्वारा यात्रा उसकी मृत्यु से छह मास के भीतर की जाए।

15. अग्रिम धन.—विपक्षी नेता निम्नलिखित का हकदार होगा—

(क) (i) पद-भार ग्रहण करने के लिए दिल्ली के बाहर के अपने सामान्य निवास स्थान से, और

(ii) पद छोड़ने पर दिल्ली से, दिल्ली के बाहर के अपने सामान्य निवास स्थान तक,

अपनी यात्रा और अपने कुटुम्ब के सदस्यों की यात्रा के लिए यात्रा-भत्ते का अग्रिम-धन और अपने कुटुम्ब की चीज-बस्त को भेजने के लिए व्यय का अग्रिम-धन।

(ख) ऐसे नेता के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए दौरो के लिए यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का अग्रिम-धन।

16. चिकित्सीय परिचर्या और उपचार.—(1) विपक्षी नेता और उसके कुटुम्ब के सदस्य, अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1954 के अधीन अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों को लागू मापमान और शर्तों पर निःशुल्क चिकित्सीय परिचर्या और उपचार की सुविधायें प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(2) जब विपक्षी नेता, ऐसे नेता के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भारत में बाहर किसी देश को प्रस्थान करता है तब वह ऐसी चिकित्सीय परिचर्या और उपचार की सुविधायें निःशुल्क पाने का हकदार होगा जैसी उस स्थान के भारतीय मिशन के प्रधान को अनुज्ञेय है।

टिप्पण.—इस नियम के प्रयोजन के लिए “कुटुम्ब” का वही अर्थ होगा जो सुसंगत चिकित्सीय परिचर्या नियमों में उसे दिया गया है।

17. टेलीफोन सुविधाएं.—विपक्षी नेता, मसद् सदन, नई दिल्ली के अपने कार्यालय में और नई दिल्ली/दिल्ली के अपने निवास स्थान पर टेलीफोन लगवाने और उसके अनुरक्षण का हकदार होगा। टेलीफोन के किराए अथवा विपक्षी नेता के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपने द्वारा किए गए स्थानीय कालों और दूर कालों के लिए उसे कोई प्रभार नहीं देने होंगे।

18. सचिवीय सहायता.—(1) विपक्षी नेता निम्नलिखित सचिवीय सहायता पाने का हकदार होगा—

(क) एक वैयक्तिक सचिव,

(ख) दो वैयक्तिक सहायक (जिसमें हिन्दी ग्राशुलिपिक भी है);

(ग) एक निम्न श्रेणी लिपिक;

(घ) एक जमादार; और

(ङ) एक चपरासी।

(2) उप-नियम (1) में उल्लिखित पदों की वही प्रास्थिति और वेतनमान होंगे जो केन्द्रीय सरकार के अधीन मन्त्रिमंडल के मन्त्री के वैयक्तिक कर्मचारीवृन्द के तत्समान पदों को लागू होते हैं।

19. सवारी भत्ता.—विपक्षी नेता को अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञेय सवारी भत्ते का संदाय प्ररूप 4 में प्रमाण-पत्र पेश करने पर किया जाएगा।

20. निर्वाचन.—यदि इन नियमों के निर्वाचन के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो वह केन्द्रीय सरकार को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

प्रकरण 1

[नियम 9 का खंड (ग) (i) देखिए]

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने इस बिल की रकम का संदाय वास्तव में कर दिया है और यह कि इसमें मेरे वैयक्तिक समान से भिन्न किसी सामग्री या माल के भाड़े संबंधी कोई प्रभार या जलपाम, होटल या यात्री-बंगले के लिए कोई प्रभार सम्मिलित नहीं है।

प्रकरण 2

[नियम 10(2)]

प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे साथ किसी व्यक्ति ने आरक्षित डब्बे में यात्रा नहीं की है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक ने मेरे साथ आरक्षित स्थान में यात्रा की है और उसने वस्तुतः उस श्रेणी का टिकट खरीदा जिसका वह हकदार है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे एक संबंधी ने जैसा कि प्राधिकृत है बिना कोई भाड़ा दिए हुए मेरे साथ आरक्षित स्थान में यात्रा की है।
4. प्रमाणित किया जाता है कि—अतिरिक्त व्यक्ति/व्यक्तियों ने मेरे साथ आरक्षित स्थान में यात्रा की है और उन्होंने आवश्यक प्रथम श्रेणी/वातानुकूलित श्रेणी के टिकट खरीदे थे।

(टिप्पण—जो पैसे लागू हों उन्हें काट दें।)

प्रकरण 3

(नियम 13)

प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि पामपोर्ट फीस/हेजे के टीके और चेचक के टीके के प्रमाण-पत्र पर किए गए व्यय शिष्टमंडल के कार्य के हित में थे और यह कि टैक्सी के किराये आदि की दरे वर्तमान दरों के अनुसार है और इन मदों पर किया गया व्यय उचित था।
2. प्रमाणित किया जाता है कि बिल में सम्मिलित बख्शीश भेदे किया गया व्यय वस्तुतः उपगत व्यय में अधिक नहीं है।

प्ररूप-4

(नियम 19 देखिए)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विपक्षी नेता के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में,
मैंने—मास के दौरान सवारी पर 300 रुपए से अत्युत व्यय किया है।

[सं० एफ० 12(3)/77-ग्रार एण्ड सी]

के० एन० कृष्णन, सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977